


मानव

शरीर रचना एवं
क्रिया विज्ञान

HUMAN ANATOMY
AND
PHYSIOLOGY




प्रो. (डॉ.) अनन्त प्रकाश गुप्ता

मानव
शरीर रचना
एवं
क्रिया विज्ञान

(HUMAN ANATOMY & PHYSIOLOGY)

प्रो. (डॉ.) अनन्त प्रकाश गुप्ता



विषय सूची (Contents)

विषय	पेज नं.
Chapter 1	
रासायनिक संघटन (Chemical Organisation)	1
Chapter 2	
मानव शरीर परिचय (Introduction to human body)	13
Chapter 3	
एनाटॉमी एवं फिजियोलॉजी : विषय प्रवेश (Introduction of Anatomy & Physiology)	20
Chapter 4	
कोशिका : जीवन की मूलभूत इकाई (Cell : Basic unit of Life)	30
Chapter 5	
ऊतक (Tissue)	39
Chapter 6	
त्वचा संस्थान (Integumentary System)	53
Chapter 7	
अस्थि-संस्थान या कंकाल तन्त्र (Skeletal System)	60
Chapter 8	
जोड़ या सन्धियाँ (Joints or Articulations)	93
Chapter 9	
पेशीय संस्थान (Muscular System)	105

विषय	पेज नं.
Chapter 10	
तन्त्रिका तन्त्र (Nervous System)	120
Chapter 11	
ज्ञानेन्द्रियाँ (Sense Organs)	157
Chapter 12	
अन्तःस्रावी संस्थान (Endocrine System)	179
Chapter 13	
रक्त-परिसंचरण संस्थान (Blood-Circulatory System)	190
Chapter 14	
लसीकीय संस्थान (The Lymphatic System)	230
Chapter 15	
श्वसन संस्थान (Respiratory System)	238
Chapter 16	
पाचन संस्थान (The Digestive System)	253
Chapter 17	
पोषण एवं चयापचय (Nutrition and Metabolism)	281
Chapter 18	
मूत्रीय संस्थान (Urinary System)	296
Chapter 19	
प्रजनन संस्थान (The Reproductive System)	308

मानव शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान

शरीर रचना विज्ञान (एनाटॉमी) एवं शरीर क्रिया विज्ञान (फिजियोलॉजी) जीव विज्ञान की वे शाखाएँ हैं, जो शरीर की रचना एवं क्रियाओं से सम्बन्ध रखती हैं। एनाटॉमी में शरीर की रचना एवं उसके विभिन्न अंगों के पारस्परिक सम्बन्धों का अध्ययन किया जाता है। फिजियोलॉजी में शरीर रचनाओं से सम्बंधित क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है।

प्रस्तुत पुस्तक चिकित्सा क्षेत्र से सम्बद्ध समस्त पूर्वस्नातक एवं परास्नातक छात्रों, पैरामेडिकल कोर्स के छात्रों तथा चिकित्सकों के लिए अति उपयोगी है। प्रस्तुत पुस्तक की विषय सामग्री को अत्यन्त सुनियोजित तरीके से सुव्यवस्थित एवं प्रासंगिक रूप में लिपिबद्ध किया गया है, जिसका अध्ययन करके पाठकगण बहुत ही लाभान्वित होंगे।

पुस्तक की भाषा अत्यन्त सरल एवं लचीली रखी गई है तथा साथ ही अंग्रेजी शब्दों का समावेश कर हिन्दी भाषा की क्लिष्टता को दूर किया गया है, जिससे सभी वर्ग के लोग लाभान्वित हो पायें। विषय को समझाने के लिए पर्याप्त संख्या में चित्र एवं सारणियाँ दी गई हैं। समस्त अंगों की जानकारी अनेकों चित्रों के माध्यम से देते हुए सभी अंगों की विस्तृत कार्य प्रणाली का बोध कराया गया है।

मातृ भाषा 'हिन्दी' में रचित यह पुस्तक एक बहुत बड़े अभाव की पूर्ति करने में सहायक होगी, यह हमारा अटल विश्वास है।



Publisher:

SUMIT PRAKASHAN

B-91/A, Alok Nagar, AGRA-10, Ph: (0562) 2511393, 2261220

Fax: (0562) 2811145, Email: sumit8@sancharnet.in

ISBN 81-87251-31-X

